



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2001/अग्राहायण 29, 1923

No. 626]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2001/AGRAHAYANA 29, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 904(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापट्टणम पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

[फाइल संख्या पी.आर.12016/61/2001/पी.ई.-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम मंजूरी) संशोधन विनियम, 2001

अनुसूची

महापत्तन न्यास, अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम मंजूरी) विनियम 1993 में और संशोधन करते हुए विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो ।

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ :

(क) ये विनियम विशाखापट्टणम पत्तन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम मंजूरी) विनियम, 2001 कहे जाएंगे ।

(ख) उक्त संशोधित विनियम वेतन पुनरीक्षण/मजदूरी पुनरीक्षण के कारण श्रेणी-I और-II अधिकारियों के लिए 10-01-2000 से तथा श्रेणी-III और IV कर्मचारियों के लिये 01-01-1998 से लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :—यह बताया जाता है कि उसमें दिये गये पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

2. विनियम 8 के खण्ड (क) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए:

“मोटर गाड़ी के लिए अग्रिम : कर्मचारी को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए पहली बार दी गयी कुल अग्रिम रकम दो लाख पचास हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा अथवा बीस महीने के मूल वेतन या नई गाड़ी के मूल्य का 80% इनमें से जो भी कम है”।

3. विनियम 8 के खण्ड (क) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए:

“20 (बीस) महीने का मूल वेतन बशर्ते कि अधिक से अधिक रु. 1.80 लाख अथवा अधिसूचित निर्धारक द्वारा प्रमाणित गाड़ी को वस्तविक मूल्य, इनमें से जो भी कम है”।

4. विनियम 9 के उप-विनियम 2 के अनुच्छेद-1 में रु. 20,000/-अंक को रु. 30,000/-से प्रतिस्थापित किया जाए।

5. विनियम 9 के उप-विनियम 2 के अनुच्छेद-2 में रु. 20,000/- अंक को रु. 30,000/-से प्रतिस्थापित किया जाए।

6. विनियम 23 के उप-विनियम 1 के खण्ड में रु. 700/- अंक को रु. 1500/-से प्रतिस्थापित किया जाए।

7. विनियम 2(ग) के खण्ड (ख) में अंक रु. 7,500/-को रु. 15,100/-के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।

8. विनियम 6 उप-विनियम 2 में अंक रु. 7,500/-को रु. 15,100/-के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।

पाद नोट:—विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम मंजूरी) विनियम, 1993 का प्रधान विनियम अधिसूचना सं. पी आर-12015/14/91 पी ई-1, दि. 03-01-1994 एवं सा. का. नि.1 (ई), दि. 03-01-1994 तथा बाद में अधिसूचना सा.का.नि. 280 (ई) दि. 27-05-1997 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2001

G. S. R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Trust Employees (Grant of Advances for Purchase of Conveyances) Amendment Regulations, 2001 made by the Board of Trustees of Port of Visakhapatnam Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

[No. PR-12016/61/2000-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

VISAKHAPATNAM PORT EMPLOYEES (GRANT OF ADVANCES FOR PURCHASE OF CONVEYANCES) AMENDMENT REGULATIONS, 2001.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the MPT Act, 1963 (Act of 38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Viaskhapatnam hereby makes, the following regulations further to amend the Visakhapatnam Port Employees (Grant of Advances for Purchase of Conveyances) Regulations 1993 subject to the approval of the Central Government under section 124 of the said Act.

(1) SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- These regulations may be called the Visakhapatnam Port Employees (Grant of Advances for purchase of conveyance) Amendment Regulations, 2001.
- The said amendment regulations shall be effective from 10-1-2000 for Class-I & II Officers and

from 1-1-1998 for Class-III & IV employees due to pay revision/ wasgc revision agreement.

Explanation :— It is stated that no one is likely to be affected adversely as a result of retropective effect given thereto.

2. REGULATION NOS. MAY BE SUBSTITUTED WITH THE FOLLOWING :

“Amount of Advance Motor Car. The total amount of advance which may be granted to an employee for the purchase of new car for the first occasion shall not exceed two lakhs and fifty thousands rupees for twenty months basic pay or 80 % of the cost of new car, whichever is lower.”

3. Clause (a) of Regulation 8, may be substituted with the following :

“20 (Twenty) months basic pay subject to a maximum of Rs. 1.80 laksh or the actual Cost of the car to be certified by the notified assessor, whichever is lower.”

4. Para 1 of sub-Regulation 2 of Regulation 9, the figures Rs. 20,000/-may be substituted with Rs. 30,000/-

5. Para 2 of sub-Regulation 2 of Regulation 9, the figures Rs. 20,000/-may be substituted with Rs. 30,000/-

6. clause of sub-Regulation 1, of regulation 23, the figures Rs. 700/- may be substituted with Rs. 1500/-

7. In Sub-Clause (b) below (c) of regulation 2, the figures Rs. 7,500/- may be substituted with Rs. 15,100/-

8. In Sub-Clause (2) of regulation 6, the figure Rs 7,500/- may be substituted with Rs. 15,100/-

FOOT NOTE.—The Principal regulation of the VPE (Grant of advances for purchase of conveyances) Regulations 1993 vide their notification No.PR-12015/14/91/PEI, dt. 3-1-1994 and G.S.R. I(E) dt. 3-1-1994 and subsequently amended vide notification as G.S.R. 280 (E), dt. 27-5-1997.

